

परिपत्र

विषय: सत्र 2021-22 के लिए टर्म-1 परीक्षाओं के लिए परीक्षा शहर/देश में परिवर्तन

यह उपर्युक्त विषय पर परिपत्र दिनांक 20/10/2021 के क्रम में है जिसमें छात्रों और स्कूलों को, परीक्षा शहर / देश के परिवर्तन के लिए अनुरोध करने की सटीक तिथियों के लिए तैयार रहने और सीबीएसई की वेबसाइट के संपर्क में रहने की सलाह दी गई थी।

तदनुसार, आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित सूचित किया जाता है:-

1. परीक्षा शहर/देश में परिवर्तन की सुविधा उन छात्रों को उपलब्ध होगी जो किसी अन्य शहर/देश में रह रहे हैं न कि उस शहर/देश में जहां वे कोविड के कारण पढ़ रहे हैं।
2. छात्र निम्न के लिए अनुरोध कर सकते हैं:-
ए. थ्योरी परीक्षाओं के लिए परीक्षा शहर/देश के परिवर्तन।
बी. थ्योरी परीक्षा और प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए परीक्षा शहर/देश के परिवर्तन।
सी. प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए परीक्षा शहर/देश में परिवर्तन।
3. संबंधित छात्र स्कूल से आवश्यकता के अनुसार थ्योरी परीक्षा या प्रैक्टिकल परीक्षा या दोनों के लिए केंद्र शहर के परिवर्तन का अनुरोध करेगा।
4. अनुरोध करते समय, छात्र वह शहर (राज्य)/देश सूचित करेंगे, जहां से छात्र थ्योरी परीक्षा/प्रैक्टिकल में उपस्थित होना चाहते हैं।
5. छात्रों के पास थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के लिए परीक्षा केंद्र के रूप में केवल एक शहर चुनने का विकल्प होगा। दो अलग-अलग केंद्रों यानी एक थ्योरी के लिए और एक प्रैक्टिकल के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी।
6. यदि विद्यार्थी केवल थ्योरी परीक्षा के केंद्र शहर को बदलने का विकल्प चुनता है, तो उसे अपने नियमित अध्ययन के स्कूल से प्रैक्टिकल परीक्षाओं में अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा।
7. विभिन्न गतिविधियों की अनुसूची निम्नलिखित विवरण के अनुसार होगी:-

गतिविधि	तिथि
परीक्षा शहर के परिवर्तन के बारे में छात्र ईमेल के माध्यम से सूचित करेंगे या स्कूल द्वारा जैसा संप्रेषित किया जाए	10.11.2021 मध्यरात्रि
स्कूल प्राप्त अनुरोधों की एक सूची बनाएंगे और सीबीएसई की वेबसाइट पर अपनी लॉगिन आईडी में नवीनतम (इस तिथि) तक अपलोड करेंगे	12.11.2021 मध्यरात्रि

8. छात्रों से स्कूल द्वारा प्राप्त अनुरोधों के आधार पर, स्कूल सीबीएसई वेबसाइट पर स्कूल खाते में लॉग इन करेगा और छात्र का विवरण जमा करेगा यानी छात्र का नाम, रोल नंबर, शहर / देश, जहां से छात्र परीक्षा में उपस्थित होना चाहता है।

9. छात्र जिस शहर से परीक्षा में शामिल होना चाहता है, उसका चुनाव सावधानी से किया जाना चाहिए क्योंकि स्कूल द्वारा अनुरोध जमा करने के बाद कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
10. अनुरोध के आधार पर, सीबीएसई उसी शहर या निकटवर्ती शहर में परीक्षा केंद्र आवंटित करेगा। इस संबंध में सीबीएसई का निर्णय अंतिम होगा।
11. प्रैक्टिकल परीक्षा के आयोजन के दौरान, जिस विद्यालय से छात्र प्रैक्टिकल परीक्षा में सम्मिलित हुआ है, उसके निर्देशानुसार अंक अपलोड किये जायेंगे।
12. विद्यालय अपने विद्यालय लॉग-इन अकाउंट से परीक्षा के बदले हुए केंद्र के साथ प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे।
13. बोर्ड द्वारा उपरोक्त अनुसूची से अतिरिक्त कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

कृपया सभी इसे सख्ती से और समय पर अनुपालन के लिए नोट कर लें।

हस्ताक्षरित

(डॉ. संयम भारद्वाज)
परीक्षा नियंत्रक

प्रति वेब एडमिन को - सीबीएसई की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ